



## प्रलिमिस फैक्ट्स : 15 मार्च, 2021

- [साहित्य अकादमी पुरस्कार](#)

### साहित्य अकादमी पुरस्कार Sahitya Akademi Award

हाल ही में मराठी लेखकों नंदा खरे ने वर्ष 2014 में लखिए गए अपने उपन्यास “उदया” (Udyā) के लिये साहित्य अकादमी पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

#### प्रमुख बातें

साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में:

- साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित, एक साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी (नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स) द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
- अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त 24 भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के साथ ही इन्हीं भाषाओं में प्रस्तुत साहित्यिक अनुवाद के लिये भी पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
- भारत के संवधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा, साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी तथा राजस्थानी को भी उन भाषाओं के रूप में मान्यता दी है जिसमें अकादमी के कारब्यक्रम को लागू किया जा सकता है।
- साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है।

पुरस्कार विजेता के चयन हेतु मानदंड:

- लेखक के पास अनविार्य रूप से भारतीय राष्ट्रीयता होनी चाहयि।
- पुरस्कार के लिये पात्र पुस्तक/रचना का संबंधित भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान होना चाहयि।
- जब दो या दो से अधिक पुस्तकों के लिये समान योग्यता पाई जाती है, तो पुरस्कार की घोषणा हेतु कुछ नियमित मानदंडों जैसे- साहित्य के क्षेत्र में कुल योगदान तथा लेखकों की स्थिति/प्रतष्ठा आदिको ध्यान में रखा जाता है।

मराठी उपन्यास ‘उदया’ के विषय में:

- यह वर्तमान पूऱ्यावादी और मशीन चालति मानव जीवन के परिणामों के रूप में उभर रहे संभावित परवृत्तियों का एक भविष्यावादी दृष्टिकोण है।
- यह उपन्यास इस बात की व्याख्या करता है कि कौसे मनुष्य को मशीनों द्वारा गुलाम बनाया गया है, विशेष रूप से ऐसी मशीनों द्वारा जो कसी के नजीब जीवन की नियंत्रणी करने हेतु अतिसिंवेदनशील है।

#### ज्ञानपीठ पुरस्कार:

- ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है और इसे केवल एक भारतीय नागरिक को प्रतिवर्ष प्रदान किया जा सकता है।
- भारतीय संवधान (8 वीं अनुसूची) में उल्लिखित अन्य भाषाओं के साथ अंग्रेजी में भी यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
- इस पुरस्कार के अंतर्गत 11 लाख रुपए की नकद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और ज्ञान की देवी वागदेवी (सरस्वती) की एक कांस्य प्रतिकृति प्रदान की जाती है।
- यह सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रायोजित है।
- वर्ष 2018 में लेखक अमिताव घोष ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बनने वाले पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक बने।

- मलयालम भाषा के अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को वर्ष 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था।

## अन्य साहित्य अकादमी पुरस्कार:

- साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार लेखकों द्वारा बाल साहित्य में उनके योगदान के आधार पर दिया जाता है और पुरस्कार वर्ष से तुरंत पहले के पाँच वर्षों के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकों से संबंधित है।
- साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 35 वर्ष और उससे कम आयु के लेखक द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से संबंधित है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/prelims-facts-15-march-2021>